



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 वैशाख 1946 (श0)  
(सं0 पटना 453) पटना, सोमवार, 13 मई 2024

सं० सं० 04/नि.अधि.(कैश-क्रेडिट) प्रबंधकीय अनुदान-09/2022-776  
सहकारिता विभाग

संकल्प

15 मार्च 2024

**विषय:-** राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों जो विभागीय संकल्प सं०-2881 दिनांक 12.10.2023 द्वारा अनाच्छादित है, उन्हें खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 से राज्य खाद्य निगम को निर्धारित तिथि तक आपूर्ति की गई चावल (सी0एम0आर0) की मात्रा के आधार पर रू० 20/- प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

पैक्स/व्यापार मंडलों को राज्य खाद्य निगम से भुगतान में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण हो रही कठिनाईयों के मद्देनजर तथा सहकारी संस्थाओं के सुदृढीकरण के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से धान अधिप्राप्ति कार्य के प्रबंधन हेतु प्रबंधकीय अनुदान की राशि दी जाती है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-2881 दिनांक 12.10.2023 द्वारा राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को चावल (सी0एम0आर0) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से रू० 10/- प्रति क्विंटल से बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शतप्रतिशत चावल (सी0एम0आर0) की आपूर्ति करने पर रू० 30/- (तीस) प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शतप्रतिशत चावल (सी0एम0आर0) आपूर्ति करने पर रू० 25/- (पच्चीस) प्रति क्विंटल एवं उसके बाद शतप्रतिशत चावल (सी0एम0आर0) आपूर्ति करने पर रू० 20/- (बीस) प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में राज्य के 364 पैक्स एवं 1 व्यापार मंडल द्वारा शतप्रतिशत चावल (सी0एम0आर0) की आपूर्ति निर्धारित/विस्तारित अवधि तक नहीं की गई है, जिस कारण उक्त समितियों को उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक आपूरित चावल के लिए भी प्रबंधकीय अनुदान मद में राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।

4. सहकारी संस्थाओं के हित में राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न ऐसी सहकारी समितियाँ जो विभागीय संकल्प संख्या 2881 दिनांक 12.10.2023 से अनाच्छादित हैं, अर्थात् जो निर्धारित तिथि तक शत-प्रतिशत चावल (सी0एम0आर0) की आपूर्ति नहीं कर पाये हैं उन्हें भी खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 से राज्य खाद्य निगम को

निर्धारित तिथि तक आपूर्ति की गई चावल (सी0एम0आर0) की मात्रा के आधार पर रू0 20/- प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

5. इस व्यवस्था के लागू होने से प्रस्तावित दर पर अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्स/व्यापार मंडलों को खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 के लिए कुल रू0 2.00 करोड़ (दो करोड़) की राशि का भुगतान अनुमानित है तथा इसी प्रकार आगामी वर्षों के लिए भी राशि की आवश्यकता अनुमानित होगी।

6. यह व्यवस्था पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2881 दिनांक 12.10.2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होनेवाली सहकारी समितियों पैक्स/व्यापारमंडलों पर लागू होगी।

7. राशि का व्यय राज्य योजना शीर्ष से की जायेगी। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए उदव्यय का निर्धारण धान अधिप्राप्ति की उपलब्धि की मात्रा के अनुरूप किया जायेगा। इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति एवं योजना हेतु विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा।

8. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.03.2024 में मद सं0-51 के रूप में (संचिका सं0-04/नि.अधि.(कैश-क्रेडिट) प्रबंधकीय अनुदान-09/2022, पृ0 60/टि.) स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/समितिवार विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. प्रबंधकीय अनुदान की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जवाबदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथावांछित निर्देश संसूचित करेंगे।

11. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
संतोष कुमार मल्ल,  
प्रधान सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**

**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**

**बिहार गजट (असाधारण) 453-571+20-डी0टी0पी0।**

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**